



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 73]
No. 73]नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2007/माघ 4, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2007/MAGHA 4, 1928

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2007

का.आ. 76(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अवधारित करती है कि :-

- (क) "विविधता में एकता" की विषयवस्तु के साथ "विविधता में एकता" के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसालों में पांच रुपए मूल्य के सिक्कों का निर्माण भी किया जाएगा;
- (ख) उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों के अनुसार इसके पश्चात् निर्मित किए जाने वाले उपरोक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाओं, डिजाइन और धातु संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

सिक्के का अंकित मूल्य	रूप और बाह्य व्यास	धातु संरचना	सिरेशनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
पांच रुपए	गोल 23 मिलीमीटर सुरक्षा किनारों सहित	फैरिक स्टेनलैस स्टील से युक्त लोहा-82% क्रोमियम-13%	

डिजाइन

पांच रुपए

मुख भाग

सिक्के के मुख भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" इबारत अंतर्लिखित होगी, उसकी ऊपरी बाईं परिधि पर हिन्दी में "भारत" शब्द और ऊपरी दाईं परिधि पर अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होगा। उस पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "5" भी होगा और निचली बाईं परिधि पर हिन्दी में "रुपए" शब्द और निचली दाईं परिधि पर अंग्रेजी में "RUPEES" शब्द होगा।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग पर हमारे देश के परिभाषित लक्षण "विविधता में एकता" को दर्शित करने वाला दृश्य रूपण होगा। प्रतीक एक शरीर पर चार सिर वाला दिखाई देगा। इसका यह विचार है कि देश के सभी चारों भागों से आने वाले लोग एक ही बैनर के अधीन एक साथ आ रहे हैं और उनकी एक देश के रूप में ही पहचान है। दृश्य कोड़ व्यष्टिक अंकित मूल्य के रूप दृश्य रूपण करने में सहायक होगा जिससे उसकी पहचान शीघ्र हो सके।

5 रुपए के सिक्के के लिए सुरक्षा किनारा

सिक्के का किनारा उसकी परिधि का सुरक्षा किनारा होगा। किनारे के मध्य में रिक्त जगहों द्वारा पृथक् किए हुए दो खंडों के अंदर की ओर डिजाइन में उथला खांचा होगा। इस डिजाइन में उभार के मनकों की श्रृंखला अंतर्विष्ट होगी और प्रत्येक मनका उभार में झुकी हुई एक पंक्ति द्वारा अनुगम किए होंगे। इसमें कुल 30 पंक्तियां और 30 मनके होंगे।

[फा. सं. 12/2/2006-सिक्का II]

अंशोक अजमानी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2007

S. O. 76(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that :—

- (a) the coin of Five Rupees denominations with the theme “Unity in Diversity” shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of “Unity in Diversity”;
- (b) the coin of the above denomination hereafter to be coined in accordance with the provisions of Section 6 of the said Act shall conform to the following dimension, design and composition, namely :—

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Metal composition	Number of serration
(1)	(2)	(3)	(4)
Five Rupees	Circular 23 millimeters with security edges	Ferritic Stain-less Steel containing— Iron-82% Chromium-18%	

DESIGNS

FIVE RUPEES

OBVERSE

This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word “भारत” in Hindi and on the right upper periphery flanked with the word “INDIA” in English. It shall also bear the denominational value “5” in International Numerals flanked on the left lower periphery with the word “रुपये” in Hindi and right lower periphery with the word “RUPEES” in English.

REVERSE

This face of the coin contain the visuals showing stylised representation of “Unity in Diversity”, a defining characteristic of our country. The symbol shall be seen as four heads sharing a common body. It shall be thought of as people from all four parts of the country coming together under one banner and identifying with one nation. The visual code helps the user connect the visual with an individual denomination which makes the process of identification quicker.

SECURITY EDGE FOR 5 RUPEES

The edge of the coin shall be security edge on periphery. At the center of the edge there shall be shallow groove with a design inside the two sections separated by blank spaces. This design shall consists of chain of beads in relief and each bead being followed by one inclined line in relief. There shall be total 30 lines and 30 beads.

[F. No. 12/2/2006-Coin II]

ASHOK AJMANI, Under Secy.